

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3- समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री प्रकाश चन्द चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 वित्त, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वक्फ, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, सहकारिता, राजस्व, खनिज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयुर्वेद, परिवहन, शिक्षा, समाज कल्याण, उद्योग, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि विपणन, प्रारम्भिक शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा, इंदिरा गांधी नहर, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, भू-संरक्षण, कृषि, कार्मिक, सहायता व सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

1- श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) दातारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की डामर सड़कों का रिनोवेशन एवं सुदृढीकरण करने बाबत् ।

(II) दातारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् ।

2- श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जोधपुर (अनाज) मण्डी क्षेत्र देचु में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना एवं निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

3- श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, नगरपालिका एवं उपखण्ड देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

- 4- श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-
- (I) जिला जैसलमेर के ग्राम तम्डेराय रोड फांटा से ग्राम पोलजी की डेयरी के मध्य 2 किलोमीटर सड़क बनाने बाबत् ।
- (II) जैसलमेर-बाड़मेर रोड के 11 किलोमीटर से चुनाराम भील की ढाणी तक 2 किलोमीटर रोड बनाने बाबत् ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित)
2.	7 - निर्वाचन

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 18 मार्च, 2010